

Pinterest accused of gender bias in suit by ex-CFO

NYT
San Francisco, August 12

IN APRIL, FRANÇOISE Brouher, the chief operating officer (COO) of Pinterest and its top female executive, abruptly left the company with little explanation.

In a lawsuit filed on Tuesday, Brouher accused the \$21-billion company, which makes virtual pinboards, of firing her after she complained about sexist treatment. In her suit, which was filed in San Francisco Superior Court, Brouher said she had been left out of important meetings, was given gendered feedback, was paid less than her male peers when she joined the company, and ultimately was let go for speaking up about it.

"Gender discrimination at the C-level suite may be a little more subtle, but it's very insidious and real," Brouher, 54, said in an interview. "When men speak out, they get rewarded. When women speak out, they get fired." Pinterest was reviewing the lawsuit, a company spokeswoman said. "Our employees are incredibly important to us," she said, adding that Pinterest was committed to advancing its culture so "all of our employees feel included and supported."

Brouher is one of the most prominent female tech executives to file a gender discrimination suit against her one-time employer since the venture capitalist Ellen Pao sued her firm, Kleiner Perkins Caufield & Byers, in 2012. The new lawsuit suggests that bias against women in Silicon Valley has persisted, even after tech's culture of sexual harassment of female executives and entrepreneurs became part of the #MeToo movement.

Brouher's lawsuit follows a gender discrimination lawsuit last month against Carta, a financial technology start-up, by its former vice-president for marketing, Emily Kramer. Kramer accused Carta of paying her less than her male peers and said the company retaliated against her for speaking up about gender equality and diversity. A Carta spokeswoman said, "Gender inequality in the workplace is a real and systemic problem, particularly in Silicon Valley, however, the allegations in this case are unfounded." Brouher's



Françoise Brouher filed her suit against Pinterest on Tuesday alleging that she was fired after speaking up about mistreatment

suit adds to the scrutiny of Pinterest, which has a large audience of female users. In recent months, the company, based in San Francisco, has also been criticised by some of its former Black employees over racial discrimination. In June, two of them, Ifeoma Ozoma and Aerica Shimizu Banks, tweeted about racist and sexist comments, pay inequities and retaliation they experienced at the company. They quit in May.

Brouher is well known in Silicon Valley. She previously led the business side of the financial technology company Square and worked in a variety of positions on Google's advertising business. She joined Pinterest in 2018 as chief operating officer and was responsible for the company's revenue, with roughly half of the 2,000 employees reporting to her. When Pinterest filed to go public in 2019, Brouher learned that she was paid less than her male peers and that her equity grants were "backloaded," meaning most of them vested after several years, while her executive male peers' grants were not, according to the lawsuit. After complaining, her compensation was adjusted.

Brouher said she was not invited on the "road show" to talk to investors for Pinterest's initial public offering. She was also not invited to board meetings after the company went public, though members of her team were sometimes invited to those meetings without her knowledge, the lawsuit said. (She was not a member of the board.) Brouher described a culture of "constant exclusion," where decisions were frequently made in unofficial capacities, or "the meeting after the meeting."

Trump's WeChat assault risks \$280-bn Tencent rally

DONALD TRUMP'S WECHAT ban targets a celebrated Chinese innovation at the heart of the world's largest mobile gaming and social media empire, threatening one of the more eye-catching

stock rallies of 2020. It's hard to overstate WeChat's importance to Tencent. It's the means through which Tencent introduces a billion people to games and other online

content, funneling trillions of dollars in annual payments to brands from Apple to Walmart. WeChat's reach underpinned Tencent's \$280-billion gain in market value since a March 18

Covid-19 trough—equivalent to one Samsung Electronics and the fifth-biggest dollar-gain on the planet over that period. Trump single-handedly stopped that rally cold. —BLOOMBERG

Lemon Electronics Ltd.
(Company under Corporate Insolvency Resolution Process)
INVITATION FOR EOI FOR SALE OF CARS
Resolution Professional is conducting sale of Passenger Cars owned by the company. Interested parties are hereby invited to submit Expression of Interest for purchase of Cars on "AS IS WHERE IS BASIS" & "WITHOUT RECOURSE BASIS". Detail of Cars is as under:

Description of Vehicle/Model	Registration No.	Date of Registration
Innova Crysta - 2.4VXL/7STR Diesel	UP16BM2498	27.03.2017
Maruti New Swift - VDI Diesel	UP16BZ3975	23.10.2018
Maruti New Swift - VDI Diesel	UP16BZ3971	23.10.2018
Amaze - 1.25MT (VTEC)M	DL10CL4971	17.10.2018

Last Date for submission of EOI: 24.08.2020, latest by 5.00 PM
E-Auction on: 26th August, 2020 from 2.00 PM to 3.00 PM at e-auction portal: <https://mcauction.auctiontignr.net>
You are requested to go through detailed Sale Notice uploaded on the website www.insolvencyresolution.co.in and <https://mcauction.auctiontignr.net>
Detailed Notice is integral part of this sale notice.
For any clarification please write to us at criplemon@gmail.com.

Lemon Electronics Ltd.
(Company under CIRP)
E-AUCTION SALE NOTICE
SALE OF MOVABLE ASSETS
(Inventory - Finished Goods and Raw Material)
Resolution Professional is conducting sale of LED TVs, Mobile Phones, Mobile Accessories & Mobile Component & Consumables owned by the company. Interested parties are hereby invited to submit Expression of Interest for purchase of said items on "AS IS WHERE IS BASIS" & "WITHOUT RECOURSE BASIS". Stock is divided in four categories as under:

Description of Inventory
LED TVs
Mobile Phones
Mobile Phone Accessories
Mobile Components & Consumables

Last Date for submission of EOI: 24.08.2020, latest by 5.00 PM
E-Auction on: 26th August, 2020 from 2.00 PM to 3.00 PM at e-auction portal: <https://mcauction.auctiontignr.net>
You are requested to go through detailed Sale Notice uploaded on the website www.insolvencyresolution.co.in and <https://mcauction.auctiontignr.net>
Detailed Notice is integral part of this sale notice.
For any clarification please write to us at criplemon@gmail.com.

Form No. INC-25A
Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company
Before the Regional Director
Ministry of Corporate Affairs
Northern Region
In the matter of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of M/s ISPAT INDIA LIMITED having its registered office at 216/38, Ansal Tower, Nehru Place, New Delhi-DL 110020, IN
.....Applicant
Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under Section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Wednesday 12.08.2020 to enable the company to give effect for such conversion.
Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi -110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office.

J&K Bank
Serving To Empower
Notice for e-Tender (e-NIT)
for
Supply of Printer Stationery Items
Tender Notice along with Complete tender document outlining the minimum requirements can be downloaded from the Bank's e-Tendering Service Provider portal <https://e-auction.auctiontignr.net> from August 13, 2020 16.00 Hrs onwards. Notice of the Tender and Tender Document can also be downloaded from Bank's Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids is September 04, 2020, 17.00 Hrs.
e-RFQ Ref. No.: JKB/CSO/NF-143/2020-081
Dated: 10-08-2020

The Jammu and Kashmir
Central Stationery Department
Nowgarm, Bye-Pass
Srinagar, J&K 190 015
Notice for e-Tender (e-NIT)
for
Supply of Printer Stationery Items
Tender Notice along with Complete tender document outlining the minimum requirements can be downloaded from the Bank's e-Tendering Service Provider portal <https://e-auction.auctiontignr.net> from August 13, 2020 16.00 Hrs onwards. Notice of the Tender and Tender Document can also be downloaded from Bank's Website www.jkbank.com. Last date for submission of Bids is September 04, 2020, 17.00 Hrs.
e-RFQ Ref. No.: JKB/CSO/NF-143/2020-081
Dated: 10-08-2020

ISPAT INDIA LIMITED
216/38, Ansal Tower, Nehru Place, New Delhi - 110020, IN
For and on behalf of the Applicant
Sd/-
Sanjay Goyal
Director
Din : 00111898
Add: House No. HIG 1, Semaria Chowk Raghuraj Nagar Satna - 485001, MP, IN
Date: 12.08.2020
Place: Delhi

इंडियन बैंक
इलाहाबाद
Indian Bank
ALLAHABAD
Branch: Aligarh Railway Road, Aligarh
POSSESSION NOTICE (for immovable properties under Rule 8(1))
The Authorized Officer of Indian Bank (e-Allahabad bank), under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. within sixty days from the date of receipt of said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount notice is hereby given to the borrower/guarantor and the public in general that the undersigned has taken the possession of the properties described herein below in exercise to powers conferred on him/her under section 13(4) of the said act read with the Rule 8 of the said Rules on the date mentioned hereunder. The borrower/Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the properties. Any dealing with the properties will be subject to the charge of Indian Bank (e-Allahabad bank), for the amounts and interest thereon. Details of the mortgaged Properties of which the possession had been taken is as follows.
The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) for section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name & Address of Borrowers/Warrogator/Guarantors	Details of the Immovable Properties on which possession taken	Date of demand notice	Date of possession	Amt. Due as per notice
Borrower - M. R. Ramprasad S/O Shyam Lal, Guarantor - Mr. Tika Ram S/O Chedalal,	A Residential House No. 11/176 (Old) 11/82 (New), Situated at Sarai Kutab Pargana & Teh. Koli Distt. Aligarh, Area-98.59 Sq. Mtr. in the name of Shri Ramprasad S/O Shyam Lal. Bounded as: East-House of Jawahar Singh, West-Aam Gali, North-House of Dori Lal, South-House of Brahmdatt.	02.03.2020	07.08.2020	₹ 8,47,157/- + interest & Other Expenses

Place : Aligarh Date : 13-08-2020 Authorised Officer

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar - 125005 (Haryana)
Email: info@hisarmetal.com; Website: www.hisarmetal.com
Tel.: (01662) 220067, 220367, 220738 Fax: (01662) 220265
CIN: L74899HR1990PLC030937
Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on June 30, 2020
(Rs. in lakhs except as stated)

Particulars	Quarter ending 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter ending 31.03.2020 (Audited)	Quarter ending 30.06.2019 (Unaudited)	Year ending 31.03.2020 (Audited)
1 Total Income from Operations (including other income)	1533	3867	5017	17811
2 Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-74	38	166	502
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-74	38	166	502
4 Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-74	21	119	391
5 Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	-74	21	119	391
6 Equity Share Capital	540	540	540	540
7 Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	2205
8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- Basic and Diluted	-1.37	0.39	2.20	7.24

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.hisarmetal.com)
For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
(Abhiram Tayal)
Managing Director
DIN 00081453
Place: Hisar (Haryana)
Date: August 12, 2020

EMA INDIA LIMITED
CIN: L27203UP1971PLC005408
REGD. OFFICE: C-13 PANJI INDUSTRIAL AREA, UDHOG NAGAR, KANPUR - UTTAR PRADESH
Website: www.emaiz.com; e-mail: ema@emaiz.com
Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020
(Rs. in Lakhs except per share data)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Previous Year ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)
1	Total income from Operations	0.00	0.00	0.00
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.80)	(51.58)	(10.27)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.80)	(51.58)	(10.27)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.80)	(51.58)	(10.27)
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(8.82)	(70.33)	(12.17)
6	Equity Share Capital	100.50	100.50	100.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	24.81	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic 2. Diluted	(0.98) (0.98)	(7.00) (7.00)	(1.21) (1.21)

Note: (a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on company's website: www.emaiz.com (b) The financial results were approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2020. (c) The Statutory Auditors of the Company have carried out the limited review in respect of the unaudited financial results for the Quarter ended 30th June, 2020.
For EMA India Limited
Sd/-
Ranjana Bhargava
(Whole Time Director)
Place: Kanpur
Date: 12.08.2020

Cos test antibody drugs to treat, prevent Covid

WITH A CORONAVIRUS vaccine still months off, companies are rushing to test what may be the next best thing: drugs that deliver antibodies to fight the virus right away, without having to train the immune system to make them. Vaccines work by tricking the body into thinking there's an infection so it makes antibodies and remembers how to do that if the real bug turns up. But it can take a month or two after vaccination or infection for the most effective antibodies to form. The experimental drugs shortcut that process by giving concentrated versions of specific ones that worked best against the coronavirus in lab and animal tests. —AP

SALORA
SALORA INTERNATIONAL LIMITED
CIN:L74899DL1968PLC004962
Regd. Off.: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110 020
Tel.:011-40552341
Email: sect@salora.com Website: www.salora.com
NOTICE
Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 282nd meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 20th August, 2020 at the Registered Office of the Company inter alia to consider and approve Unaudited Financial Results of the Company for 1st Quarter ended on 30th June, 2020.
The said notice can be accessed on the Company's website at www.salora.com and also at Stock Exchange website at www.bseindia.com
Further trading window for dealing in shares of the Company for the Company's Directors, Auditors, Senior / Designated Employees and their respective relatives, which has been closed since 31st July, 2020 will be opened after the expiry of 48 hours from declaration of the said financial results i.e. 20th August, 2020.
For Salora International Ltd.
Sd/-
(Gopal Sitaram Jiwarijka)
Date : 11th August, 2020 Chairman & Managing Director

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India, Bahadurshah Zaffar Marg, New Delhi 110002
Relationships beyond banking.
[Rule-8(1)] POSSESSION NOTICE
Whereas The undersigned being the authorized officer of the Bank of India, Bahadurshah Zaffar Marg Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 29-02-2020 calling upon the borrower Mr. Amit Malhotra to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 19,16,185.34/- (Rupees Nineteen Lakh Sixteen Thousand One Hundred Eighty Five And Paise Thirty Four) within 60 days from the date of receipt of said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section 4 of Section 13 of the said Act read with rule 8 of the security interest enforcement rules 2002 on this the 07th day of August of the Year 2020.
The borrower/guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of India, Bahadurshah Zaffar Marg Branch for an amount Rs. 19,16,185.34/- and interest thereon.
The borrower's attention is invited to provisions of sub-section 8 of section 13 of the act, in respect of time available, to redeem secured assets.
DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of the property consisting of Right side portion of the 2nd Floor without roof/terrace rights of the property No. 21-A, built on land area measuring 100 sq. yards, out of the total land measuring 200 sq. yards, having khasra no. 874,875,876,877 situated at village Nawada, colony known as Sewak Park extension, Najafgarh road, Uttam Nagar, New Delhi-110059.
Bounded:
On the North by: Property no. 20, On the South by: Property no. 21, On the East by: Road, On the West by: Road
Date: 07.08.2020
Place: DELHI
Arun Kumar Puri, (Authorized Officer)
Bank of India, B.S.Z. Marg Branch

RAMA STEEL TUBES LIMITED
CIN: L27201DL1974PLC007114
Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi-110096
E-mail ID: info@ramasteel.com, investors@ramasteel.com, Ph. No. 011-43446600;
Website: www.ramasteel.com
Extracts of the Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2020
prepared in compliance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	30-Jun-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	30-Jun-19 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)
Total income from operations	4,817.54	8,541.22	10,065.31	35,645.96
Net Profit/(Loss) before Tax (Before Exceptional and Extraordinary Items)	(213.22)	255.90	173.84	284.93
Net Profit/(Loss) before Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	(213.22)	255.90	173.84	284.93
Net Profit/(Loss) after Tax (After Exceptional and Extraordinary Items)	(192.30)	60.60	153.47	116.26
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) after Tax and other comprehensive income after Tax)	(192.13)	69.02	148.50	155.50
Equity Share Capital	839.70	839.70	839.70	839.70
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	8,016.75
Earning per Share (in ₹)				
Basic	(1.14)	0.41	0.88	0.93
Diluted	(1.14)	0.41	0.88	0.93

Notes:
1. These consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment thereafter.
2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 12, 2020. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.
3. Standalone Results as on June 30, 2020 are as under :- (₹ in Lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 30-Jun-20 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)	30-Jun-19 (Unaudited)	31-Mar-20 (Audited)
1	Net Sales / Income From Operations	2,301.67	7,746.95	8,379.89	29,176.13
2	Other Income	105.21	139.00	79.03	472.34
3	Profit before Tax	(169.37)	156.06	162.83	342.13
4	Total after Tax	(163.38)	23.55	126.23	210.90
5	Profit Comprehensive Income after Tax	(163.59)	22.97	126.14	210.06

4. The above Financial Results for the Quarter ended June 30, 2020 are available on the website of the Company (www.ramasteel.com) and on Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com).
5. Figures of previous quarter/ period have been regrouped and/or reclassified or re-cast or re-arranged wherever considered necessary.
For Rama Steel Tubes Ltd.
Sd/-
Naresh Kumar Bansal
Managing Director
Place: Delhi
Date: 12.08.2020

PUBLIC NOTICE
My client Rajender Kumar S/o Late Sh. Mahadeva, R/o D-383, J.J. Colony, Indraprastha, Delhi-110012, has disowned his son Manish and daughter-in-law Soniya, debaring them from all his moveable and immovable properties due to their misbehavior and misconduct. If anybody dealing with them whatsoever shall be doing so at his/her own risk, cost and responsibility. My client and his family members will not be responsible in any manner whatsoever.
Kamal Singh (Advocate)
Ch.No.512, Rohini Courts, Delhi-85

UCO Bank
Zonal Office: NCR Plaza, New Cantt. Road, Dehradun
POSSESSION NOTICE [Rule-8(1)] (For Immovable Property)
Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the UCO Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower / Guarantor as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of said notice. The Borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this below mentioned date. The Borrower/Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties, and any dealings with the property will be subject to the charge of UCO BANK, Respective Branch for the amount detailed below and interest together with expenses thereon. (The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets)

S. No.	Name of the Branch/ Borrower/Guarantor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice	Outstanding as per Demand Notice	Date of possession
1.	Branch: Kichha Borrower: Shri Maqbool Hussain S/o Shri. Matloob Mortgagor/Guarantors: 1. Mr. Matloob Hussain S/o Mr. Makhdoom Hussain, 2. Mrs. Shafiq Bano W/o Mr. Matloob Hussain, 3. Mr. Akeel Ahmad S/o Mohd. Ahmad, 4. Mr. Ajim S/O Babu Khan	Residential House at khet No. 438 Min area 24x49.5 ft. i.e. 110.40 Sqm, situated at Vill- Ward No. 6 Nai Sunheri, Tehsil- Kichha, Distt-Udhham Singh Nagar in the Name of Shri Matloob Hussain S/o Shri Makdoom Hussain. Registered in the office of Sub Registrar Kichha Distt. U.S. Nagar with Bahi No. 1, Zild no. 1886 on pages 121-130, SI No. 5125, Dated 28.05.2014. Bounded as Under: East: Human Ansaari, West: Rastla, North: Rastla, South: Mo. Ahamed.	12.03.2019	Rs. 13,66,553/- as on 31.01.2019 (inclusive of interest up to 30.11.2018) + interest & Other Charges	07.08.2020
2.	Branch: Haldwani Borrower: Mr. Bhuvan Ram Vidyarthi S/o Shri Swaroop Ram & Mrs. Sushma Rani Vidyarthi W/o Mr. Bhuvan Ram Vidyarthi, both residence of Khasra No. 75min, village Bhagwanpur Bichhala, Haldwani- 263139.	All that part & Parcel of Property- Land and Building thereon at Khasra No. 75min, Village Bhagwanpur Bicha, Tehsil- Haldwani, Nainital, Measuring 2700 Sqft. Boundaries: East: Remaining Land of Seller, West: Remaining Land of Seller, North: 12 ft Wide Road, South: Property of Ranjan & Harish.	26.09.2019	Rs. 7,03,808.03 as on 31.03.2019 + interest & Other Charges	07.08.2020

Date: 12.08.2020 Place: Kichha/Haldwani Authorised Officer, UCO Bank